

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नौएडा(उ0प्र0)

संख्या:-नौएडा/मु0या0नि0/2016/ III-289/995
दिनांक : 18/10/17

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश

सेवा में,

मैसर्स आई0वी0 काउन्टी (प्रा0) लि0
 भूखण्ड सं0 जीएच - 05, सैक्टर - 121,
 नौएडा

bee प्रिय महोदय,

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि वारत्तुविद श्री विशाल शर्मा काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर पंजीकरण संख्या सीए/98/23261 समूह/फर्म के पर्यवेक्षण में ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड संख्या जीएच - 05, सैक्टर - 121, नौएडा पर पूरे किये गये भवन का निर्माण /पुनर्निर्माण/परिवर्तन /गिराये जाने के काम का संलग्न मानचित्र के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया है तथा मैं घोषणा करता हूँ कि सम्बन्धित पंजीकृत वारत्तुविद के समूह / फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये संरचना मजबूती प्रमाण पत्र तथा समापन प्रमाण पत्र के आधार पर अधिभोग संरचना मजबूती, अग्निसुरक्षा, अन्दर तथा आस-पास की स्वच्छता और सफाई सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में यह रहने तथा अधिभोग के योग्य है।

यह आंशिक अधिभोग पत्र दिनांक 29.09.2017 को प्राधिकरण द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि आवंटी द्वारा भूखण्ड / भवन में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ परिवर्तन किया/किये जाते हैं अथवा नौएडा बिल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन /भवन विनियमावली के विरुद्ध कोई निर्माण किया जाता है तो ऐसे निर्माण के विरुद्ध उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा -10 के अन्तर्गत हटाने की कार्यवाही आपेक्षित होगी। भविष्य में भूखण्ड / भवन में नौएडा बिल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन / भवन विनियमावली के अनुसार विस्तार का अलग से मानचित्र स्वीकृत कराने तथा उस भाग का अधिभोग पत्र नियमानुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आवंटी /भू-स्वामी का होगा।

भूखण्ड का क्षेत्रफल

= 99,820.00 वर्ग मी0

भू-आच्छादन का विवरण(7 टॉवर्स -A1,A2, C1,C2,C3, D1 & D2)


सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल	=	39,928.00 वर्ग मी0 (40%)
सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत भू-आच्छादित क्षेत्रफल	=	26,322.48 वर्ग मी0(26.37)
वर्तमान में निर्मित भू-आच्छादन क्षेत्रफल (कुल 07 टॉवर्स)	=	5146.90 वर्ग मी0 (5.16%)

एफ0ए0आर0 का विवरण (टॉवर सं0 7 टॉवर्स -A1,A2, C1,C2,C3, D1 & D2)

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य एफ0ए0आर0(Purchasable FAR सहित)	=	3,66,838.50 वर्ग मी0
---	---	----------------------

सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत एफ0ए0आर0	=	3,66,837.47 वर्ग मी0
-------------------------------------	---	----------------------

वर्तमान में निर्मित एफ0ए0आर0(07 टॉवर्स)	=	1,08,823.025 वर्ग मी0
---	---	-----------------------



ज्यूलिंग यूनिट का विवरण

- कुल रखीकृत ज्यूलिंग यूनिट्स 2907 यूनिट्स
- वर्तमान में निर्मित ज्यूलिंग यूनिट्स (07 टॉवर) 770 यूनिट्स

प्रतिबन्ध -

1. माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र 375 एवं 454 वर्ष, 2015 परमवीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं आनन्द आर्थ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में ओखला पक्षी विहार के इको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण के साबन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुपालन हेतु आबंटी संस्था बाध्य है। यह अधिभोग प्रमाण पत्र माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अन्तिम पारित किये जाने वाले आदेश के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।
2. नौएडा भवन विनियमावली - 2010, उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट - 2010, रेरा(Real Estate Regulation and Development Act) 2016, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन आबंटी संस्था पर बाध्यकारी होगा।
3. अधिभोग प्रमाण पत्र एवं मानचित्रों में दर्शायी गयी रखीकृति के सापेक्ष प्राधिकरण की रखीकृति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का परिवर्तन/ परिवर्धन/संशोधन आदि किया जाना अनाधिकृत माना जायेगा तथा उसको धरस्त कर / हटाये जाने की विधिक कार्यवाही की जायेगी।
4. अग्निशमन, लिफ्ट संचालन, वर्षा जल संचालन प्रणाली, जल संरक्षण व रिसाइकिलिंग, लैण्डस्केप/ हरित क्षेत्र/ खुला क्षेत्र/ वृक्षारोपण, सीवरेज सिस्टम, कूझा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पर्यावरणीय एवं प्रदूषण सम्बन्धी व्यवस्था व प्रणालियों आदि का रखरखाव व संचालन गुणवत्तापूर्वक करने के साथ हमेशा कार्यशील स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा इसके निमित्त प्राप्त किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित निर्देशों/शर्तों एवं प्रतिबन्धों आदि का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करना पूर्णतया बाध्यकारी होगा।
5. आबंटी संस्था प्राधिकरण के कार्यालय पत्र संख्या नौएडा/मु0वा0नि0/2016/325, दिनांक 02.03.2016 में उल्लेखित क्रय योग्य एफ0ए0आर0 हेतु देय शुल्क निर्धारित अवधि में जमा करवाने हेतु बाध्य होगी।

संलग्नक - भवन के समापन मानचित्र ।

भवदीय,

Completion Drawing is as per Bye Law
submitted for approval Please

P. Asst.

Asst. Arch.

Architect

नौएडा
नौएडा नियंत्रित विकास
नियंत्रित विकास
नौएडा

प्रतिलिपि:- विशेष कार्याधिकारी (ग्रुप हाऊसिंग), नौएडा को सूचनार्थ ।

